CIN: L74140MH1993PLC150054 Registered Office: Palm Court, Building-M, 501/B, 5th Floor, New Link Road, Besides Goregaon Sports Complex, Malad (West), Mumbai - 400 064, Maharashtra Tel: +91 22 2888 4060, Fax: +91 22 2889 3789

Website: www.justdial.com, E-mail: investors@justdial.com Contact Person: Manan Udani, Company Secretary and Compliance Officer

### POST BUY-BACK PUBLIC ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS / BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF JUST DIAL LIMITED

This post buy-back public advertisement (the "**Advertisement**") regarding completion of the Buy-back by Just Dial Limited (the 'Company") of its fully paid-up equity shares of face value ₹10 each (the "Equity Shares") from the shareholders / beneficial owners of the Company (the "**Shareholders**") is being published pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "Buy-back Regulations").

The Advertisement shall be read in conjunction with the public announcement dated June 24, 2020 (the "**Public Announcement**") and the letter of offer dated July 28, 2020 (the "Letter of Offer"), issued in connection with the Buy-back. All terms used but not defined herein shall have the meaning ascribed to such terms in the Public Announcement and the Letter of Offer. 1. THE BUY-BACK

- 1.1. Just Dial Limited (the "Company") had announced a buy-back of up to 31,42,857 (Thirty One Lakhs Forty Two Thousand Eight Hundred Fifty Seven) fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10 each (the "Equity Shares"), representing up to 4.84% of the total number of Equity Shares of the paid-up Equity Share Capital of the Company, on a proportionate basis, from the Eligible Shareholders holding Equity Shares as on July 3, 2020 (the "Record Date"), through a tender offer, for cash at a price of ₹ 700 (Rupees Seven Hundred only) per Equity Share for an aggregate amount of up to ₹ 220,00,00,000 (Rupees Two Hundred Twenty crores only) (the "Buy-back"). The Buy-back represented up to 23.92% of the total paid up Equity Share Capital and Free Reserves (including securities premium account) of the Company as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2019 (being the last audited financial statements available as on the date of board meeting recommending the proposal for the Buy-back, being April 30, 2020), in accordance with Section 68(2)(c) of the Companies Act, 2013. 1.2. The Buy-back was undertaken by way of a tender offer through the stock exchange mechanism as prescribed under
- the Buy back Regulations and the SEBI Circulars. 1.3. The Buy-Back Opening Date was August 4, 2020 (Tuesday) and the Buy-back Closing Date was August 17, 2020 (Monday).
- 2. DETAILS OF THE BUY-BACK
- 2.1. The total number of Equity Shares bought back by the Company in the Buy-back were 31,42,857 Equity Shares, at a price of ₹700 per Equity Share.

2.2. The total amount utilised in the Buy-back was ₹2,19,99,99,900 excluding the transaction costs.

2.3. The Registrar to the Buy-back, KFin Technologies Private Limited (Formerly known as "Karvy Fintech Private Limited") considered a total of 30,411 valid bids for 3,85,82,277 Equity Shares in response to the Buy-back, which is approximately 12.28 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid applications considered by the Registrar to the Buy-back are as follows:

Category of Shareholders	No. of Equity Shares reserved in the Buy-back	No. of Valid Bids	Total No. of Equity Shares Tendered	Response (%)
Reserved category for Small Shareholders	4,71,429	29,603	17,42,307	369.58
General category for other Shareholders	26,71,428	808	3,68,39,970	1,379.04
Total	31,42,857	30,411	3,85,82,277	1,227.62

- Note: Small Shareholders have tendered 17,42,307 Equity Shares. However, against the total entitlement of 4,71,429 Equity shares, the Buy-back Entitlement of the valid bids in the Buy-back was only for 3,01,633 Equity Shares. In view of the aforesaid response, 1,69,796 additional Equity Shares (being, Equity Shares tendered over and above the Buy-back Entitlement), have been accepted in proportion of the additional Equity Shares tendered. Accordingly, out of 17,42,307 Equity Shares validly tendered by the Shareholders in this category, 4,71,429 Equity Shares have been accepted. General Category of other Shareholders have tendered 3,68,39,970 Equity Shares, However, against the total entitlement of 26,71,428 Equity Shares the Buy-back Entitlement of the valid bids in the offer was only for 20,37,869 Equity Shares. In view of the aforesaid response, 6,33,559 additional Equity Shares (being, Equity Shares tendered over and above the Buy-back Entitlement), have been accepted in proportion of the additional Equity Shares tendered. Accordingly, out of 3,68,39,970 Equity Shares validly tendered by the Shareholders in this category, 26,71,428 Equity Shares have
- 2.4. All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buy-back Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance / rejection was dispatched by the Registrar to the Buy-back to the Shareholders, by August 27, 2020.
- 2.5. The settlement of all valid bids was completed by the Clearing Corporation of BSE Limited on August 26, 2020. The funds in respect of accepted Equity Shares were paid out to the respective seller members / custodians. If Eligible Shareholders bank account details were not available or if the fund transfer instructions were rejected due to any reason, then such funds were transferred to the concerned seller members / custodians for onward transfer to their respective shareholders. 2.6. The dematerialized Equity Shares accepted under the Buy-back were transferred to the Company's demat escrow account
- on August 26, 2020. The unaccepted demat Equity Shares were returned to respective seller members / custodians on August 26, 2020.
- 2.7. The extinguishment of 31,42,857 Equity Shares accepted under the Buyback, comprising of 31,42,857 Equity Shares in dematerialized form shall be completed in accordance with Buy-back Regulations. The Company and its directors accept full responsibility for the information contained in this Post Buy-back Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company in accordance with the Buy-back Regulations. 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1. The capital structure of the Company, prior to the Buy-back and the capital structure of the Company post the completion of the Buy-back is as follows:

		Post completion of the Buy-back	
Number of Equity Shares	Amount (in ₹)	Number of Equity Shares	Amount (in ₹)
10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000
1,20,00,000	1,20,00,000	1,20,00,000	1,20,00,000
6,49,09,728	64,90,97,280	6,17,66,871*	61,76,68,710*
11,25,068	11,25,068	11,25,068	11,25,068
	Number of Equity Shares  10,00,00,000  1,20,00,000  6,49,09,728	Number of Equity Shares       Amount (in ₹)         10,00,00,000       1,00,00,00,000         1,20,00,000       1,20,00,000         6,49,09,728       64,90,97,280	Number of Equity Shares       Amount (in ₹)       Number of Equity Shares         10,00,00,000       1,00,00,00,000       10,00,00,000         1,20,00,000       1,20,00,000       1,20,00,000         6,49,09,728       64,90,97,280       6,17,66,871*

Subject to extinguishment of 31,42,857 Equity Shares accepted in the Buy-back.

3.2. Details of the Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% (of the total Equity Shares bought back) have been accepted under the Buy-back are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under the Buy-back	as a % of the total	equity Shares accepted as a % of total post Buy-back Equity Share capital of the Company *
1.	Venkatachalam Sthanu Subramani	12,11,463	38.55	1.96
2.	HDFC Trustee Company Ltd. A/c	2,53,189	8.06	0.41
3.	Aditya Birla Sun Life Trustee Private Limited A/c	2,16,424	6.89	0.35
4.	Tree Line Asia Master Fund (Singapore) Pte Ltd	2,06,563	6.57	0.33
5.	Anita Mani	72,214	2.30	0.12
6.	Ajay Upadhyaya	49,230	1.57	0.08
7.	Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd.	41,061	1.31	0.07
8.	Copthall Mauritius Investment Limited - ODI Account	39,455	1.26	0.06
9.	Vanguard Total International Stock Index Fund	36,527	1.16	0.06
10.	Ashish Dhawan	34,411	1.09	0.06

3.3. The shareholding pattern of the Company, prior to the Buy-back (as of the Record Date, being July 3, 2020) and the shareholding nattern of the Company post the completion of the Ruy-back is as follows

Shareholding pattern	Prior to the Buy-back		Post completion of the Buy-back *	
	Number of Equity Shares	Percentage of Equity Shares (%)	Number of Equity Shares	Percentage of Equity Shares (%)
A. Promoters and promoter gro	up	À		
Promoters and persons acting in concert	2,16,92,049	33.42	2,03,49,342	32.95
B. Public Shareholding				
Foreign Investors (including Non	2,30,48,313	35.51	4,14,17,529	67.05
Resident Indians/Foreign Mutual				
Funds, Foreign Institutional				
Buyers/FPIs/Foreign Nationals/				
Overseas Corporate Bodies				
Financial Institutions /	99,90,616	15.39	1	
Banks / Mutual Funds				
promoted by Banks / Institutions				
Others (Public, Bodies Corporate,	1,01,78,750	15.68		
Clearing Members, Trust, Hindu			1	
Undivided Family ("HUF") etc.,)				
Total	6,49,09,728	100.00	6,17,66,871	100.00

Subject to extinguishment of 31,42,857 Equity Shares accepted in the Buy-back. 4.MANAGER TO THE BUY-BACK

NOMURA Nomura Financial Advisory and Securities (India) Private Limited

Ceejay House, Level 11, Plot F,

Shivsagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018 Tel: +91 22 4037 4037

Fax: +91 22 4037 4111 Contact Person: Vishal Kanjani

**E-mail:** justdialbuyback@nomura.com

SEBI Registration No.: INM000011419 Website: www.nomuraholdings.com/company/group/asia/india/index.html Validity Period: Permanent

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buy-back Public Announcement or any other advertisement, circular, brochure, publicity

material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

Place: Mumbai Date: August 27, 2020

financiale

V.S.S. Mani **Managing Director** and CEO

**Abhishek Bansal Whole-time Director** and CFO

Manan Udani **Company Secretary and** Compliance officer

For and on behalf of the Board of Just Dial Limited

#### KERALA WATER AUTHORITY-EXTENSION NOTICE e-Tender Notice

Tender No.: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40/SE/PHC/TSR/2020-2 JJM – Thrissur district – Manalur, Pananchery, Thrithala, thirumittakode, Mattathur Kodakkara Kadukutty, Pariyaram, Varantharappilly, cherpu, Vallachira, Common Component cherpu & Vallachira, Edavilangu, Eriyad, Melur, Alber, Puthukad, Thrikkur, Nenmanikkara, Alagappanagar, Karalam Gramapanehayathi- Providing FHTC to Rural house holds and allied works. EMD: Rs. 100000, Tender foe: Rs. 8400, Last Date for submitting Tender: 07-09-2020 03:00:pm, Phone: 04872423230, Website www.kwa.kerata.gov.in, www.etenders.kerata.gov.in KWA-JB-GL-6-245-2020-21 Superintending Engineer PH Circle, Thrissur

## ABANS **ABANS ENTERPRISES LIMITED**

CIN: L74120MH1985PLC035243

Regd. Office: 36/37/38A, 3rd Floor, 227, Nariman Bhavan, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021. **Tel No.:** 022 - 6835 4100, **Fax:** 022 - 6179 0010 Email: compliance@abansenterprises.com | Website: www.abansenterprises.com

INFORMATION REGARDING 34th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC)/OTHER **AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)** 

- Shareholders may please note that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through VC/OAVM on Tuesday, September 29, 2020 at 01.00 PM IST, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India (GOI) and SEBI, to transact the business that will be set forth in the Notice of the meeting.
- In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annua Report for Financial Year 2019-20 will be sent to all the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant (s). The Notice of the 34th AGM and Annual Report for Financial Year 2019-20 will also be available on the Company's website at (www abansenterprises.com) and on the website of the stock exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia com) and MSEI Limited (www.msei.com).
- Manner of registering/updating email addresses:

Members of the Company holding shares in physical form or who have not registered/update their e-mail addresses with the Company/Depositories, are requested to send the following documents/information via e-mail to support@purvashare.com in order to register/update their e-mail addresses and to obtain user id & password to cast their vote through remote e-voting or e-voting at the AGM:

- i) Name registered in the records of the Company;
- ii) DP ID & Client ID, Client Master Copy or Consolidated Account Statement (For shares held
- iii) Folio No., Share Certificate (For shares held in physical form);
- iv) E-mail id and mobile number; v) Self-attested scanned copy of PAN
- vi) Self-attested copy of any document (e.g. Election Identity Card, Passport, Aadhar etc..); c
- Members of the Company alternatively can visit to https://www.purvashare.com/email-andphone-updation and the update details as mentioned in details Option 1 to in order to registe update their e-mail addresses and to obtain user id & password to cast their vote through remote e-voting or e-voting at the AGM.
- Further, Shareholders holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants.
- Manner of casting vote through e-voting: Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth i

the Notice of the AGM through remote e-voting system. The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made to the shareholders through email after successfully registerin their email addresses in the manner provided above. The facility of e-voting will also be made available at the AGM and Members attending the AGM through audio visual means, who have not cast their vote by remote e-voting, will be able to vote at the AGM. The detailed procedure fo casting the votes through remote e-voting/e-voting shall be provided in the Notice of the AGM. The detailed instructions for joining the AGM through audio visual means shall be provided in the

- Notice of the AGM.
- 6. This Notice is being issued for the information and benefit of all the shareholders of the Compan in compliance with applicable circulars of the GOI, MCA and SEBI.

For Abans Enterprises Limited

Place: Mumbai Date: August 27, 2020

Deepesh Jain (Company Secretary

Dalmia Cement (Bharat) Limited (Resolution Applicant) Registered Office: Dalmiapuram PUBLIC ANNOUNCEMENT

Offer to purchase outstanding paid up share capital of MURLI INDUSTRIES LIMITED

Registered office: 101, Jai Bhavani Society, Wardhman Nagar, Nagpur, Maharashtra - 440008

The National Company Law Tribunal, Mumbal Bench ("NCLT") has approved the Resolution Plan ("Plan") proposed by Dalmia Cement (Bharat) Limited ("Resolution Applicant") for Murli Industries Limited ("Company/Corporate Debtor") under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 vide its order(s) dated July 03, 2019, July 22, 2019 and July 25, 2019 and by the National Company Law Appellate Tribunal ("NCLAT") vide its Judgment dated January 24, 2020.

In accordance with the Plan, Dalmia Cement (Bharat) Limited hereby offers to purchase the entire outstanding issued, subscribed and paid up capital of the Company, i.e., 7,21,07,775 equity shares of Rs. 2/- each aggregating to Rs. 14,42,15,550/-.

The procedure for tendering the Existing Securities by the Existing Security Holders is as under:

- The Record Date to determine the Existing Security Holders of the Corporate Debtor as decided by the Board of Directors of the Company at it's Board meeting held on August 25, 2020 is August 26, 2020.
- 2. The Existing Shareholders need to tender to the Resolution Applicant their Existing Securities alongwith all documentation evidencing title alongwith share transfer form/depository instruction slips for valid transfer of Existing Securities to the Resolution Applicant on or before September 25, 2020 (i.e., within 30 days from the Effective Date August 25, 2020) at the following address:

Link Intime India Private Limited Registrar and Share Transfer Agent Unit: Murli Industries Limited C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400083.

- 3. Upon such tender and verification and confirmation of claim by Link Intime, the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, the Existing Securityholders having tendered Existing Securities and the documentation as above shall be paid their respective portion of the Existing Securityholders Purchase Consideration by the Resolution Applicant and their Existing Securities shall be transferred to the Resolution Applicant free and clear of all Encumbrances.
- Upon expiry of 30 (thirty) days, the Resolution Applicant shall pay Balance Amount of Existing Securityholders Purchase Consideration to the Company who shall pay the same to relevant Existing Securityholders as and when they validly tender all documentation in relation to the Existing Securities. Immediately upon payment of Balance Amount the remaining Existing Securities shall be deemed to have been transferred to the Resolution Applicant, free and clear of all Encumbrances. 5. Without prejudice to the above, in the event all Existing
- Securityholders fail to tender their Existing Securities with 60 (sixty) days of the Effective Date, then the issued, subscribed and paid up share capital of the Corporate Debtor shall stand reduced and immediately cancelled. The approval of National Company Law Tribunal and the Committee of Creditors shall constitute adequate approval for such reduction of capital. 6. The Resolution Applicant shall pay an aggregate amount of
- Rs. 42 Lakh (Rupees Forty Two Lakh only) towards acquisition of all Existing Securities. No other payment shall be made to the Existing Securityholders of the Corporate Debtor or any other person since the liquidation value of the Corporate Debtor is inadequate to make any payment to such persons and making payment to any such person may not serve the best interests of the other stakeholders including the workmen and the Government Authorities.
- The Company, which was listed on BSE Limited and National Stock exchange of India Limited has already been delisted under Compulsory Delisting provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 with effect from August 08, 2018 and taken note by the Board of Directors on the Effective Date, i.e., August 25, 2020 for all purposes pursuant to the Resolution Plan approved under section 31 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
- 8. The Company shall become a wholfy owned subsidiary of Dalmia Cement (Bharat) Limited upon completion of acquisition of Existing Securities by Dalmia Cement (Bharat) Limited or cancellation of the issued, subscribed and paid up share capital of the Corporate Debtor.

For and on behalf of Dalmia Cement (Bharat) Limited (Resolution Applicant)

Date : August 25, 2020

BGR

www.bigreorp.com

## BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED

Registered Office: A-5 Pannamgadu Industrial Estate, Ramacuram Post, Sulurpet Takos, Nellore District. Andres Pradesh 524401 Tel: 91 44 27946249 E-mail: compliance@bgrenergy.com CIN: L40106AP1985PLC005318

### NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, September 11, 2020 interalia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020

Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. www.bgrcorp.com and on the website of the stock exchanges e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

for BGR Energy Systems Limited R. Ramesh Kumar

Place: Chennai Date : August 27, 2020

Director & Secretary

# Uttam Sugar Mills Limited [Corporate Identity Number (CIN): L99999UR1993PLC032518] Regd. Office: Village Libberheri, Tehsil Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand - 247667 Tel.: 0120 – 4152766 / 4193799, website: www.uttamsugar.in **Uttam Sugar Mills Limited**

e-mail id: investorrelation@uttamsugar.in

NOTICE OF 25" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 25° Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 25° September, 2020 at 12:00 noon through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business(es) as set out in the Notice of AGM. The Company's 25" Annual Report along with notice convening the AGM have already been sent through electronic mode on 27" August, 2020 to all the members whose email ids are registered with the Company and/or Depositories in accordance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8º 2020, read with its circulars dated April, 13" 2020 and May 5", 2020 and circular issued by Securities Exchange Board of India dated May 12", 2020. The Notice of the 25" AGM is

also available on the Company's website i.e. www.uttamsugar.in and on the website of

Link Intime India Private Limited i.e. www.linkintime.co.in. Pursuant to the provisions of Section 188 of the Companies Act. 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended up to date and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015, the Company is pleased to provide to Members the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system (remote e-voting as well as e-voting on the day of AGM) provided by Link Inlime India Private Limited. Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date i.e. Friday, 18" September, 2020 shall be entitled to avail the facility of e-voting.

The remote e-voting period will commence on Monday, 21" September, 2020 (9.00 am) and ends on Thursday, 24" September, 2020 (5.00 cm). During this period the Members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Link intime India Private Limited for voting thereafter. Those members who shall be present in the AGM through VCrOAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of

the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 197 September, 2020 to Friday, 25" September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 25" Annual General Meeting of the Company. Any person who acquires shares of the company and becomes a shareholder of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares

as on the cut off date, may obtain log-in ld and password by sending a request to

instameet@linkintime.co.in. However, if he/she is already registered with Link Intime India Private Limited for remote e-voling, then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the votes. In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of www.instavote.linkintime.co.in or contact Mr. G. Ramarathnem.

Chief - Legal and Corporate Affairs & Company Secretary, A-2E, III" Floor, CMA Tower, Sector-24, Noida (U.P.), phone no. 0120-4152766 or e-mail at investorrelation@uttamsugar in. By Order of the Board of Directors of the Company

For Uttam Sugar Mills Limited (G. RAMARATHNAM) Chief - Legal and Corporate Affairs &



Date: 27" August, 2020

Place: Noida

## TRF LIMITED A TATA Enterprise

Company Secretary (Membership No. FCS-1021)

Phone No. 0657-2345727 E-mail: cpmp\_sec@trf.co.in Website: www.trf.co.in CIN: L74210JH1962PLC000700 NOTICE OF THE 57<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING PROCEDURE

# NOTICE is hereby given that the 57th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of TRF Limited

Registered Office: 11, Station Road, Burma Mines, Jamshedpur - 531007

(the 'Company') will be held on Friday, September 18, 2020 at 3.00 p.m. (IST) via two-way Video Conferencing ('VC facility') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') ONLY to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020 April 13, 2020 and May 5, 2020 (collectively called 'MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India Circular dated May 12, 2020 ('SEBI Circular'), the Company has sent the Notice of the

57th AGM along with the link for the Annual Report of the Company for the Financial Year 2019-20 (the

'Annual Report') on Thursday, August 27, 2020, through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrars and Transfer Agent ('RTA'), TSF Darashaw Consultants Private Limited ('TSR') / Depositories. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circular. The e-copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company is available on the website of the Company at www.trf.co.in and may also be accessed from the relevant section of the websites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited ('BSE'), National Stock Exchange of India Limited ('NSE') and Calcutta Stock Exchange Limited ('CSE') at www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com respectively. The AGM Notice is also available on the website of National Securities

Depositories Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Compan Secretaries of India, as amended from time to time, the Company is providing to its Members, the facility

of remote e-voting before the AGM and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL to facilitate voting through electron The detailed instruction for remote e-voting are given in the Notice of AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-voting From 9:00 a.m. (IST) on Tuesday, September 15, 2020 End of remote e-voting At 5:00 p.m. (IST) on Thursday, September 17, 2020 The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, September 11, 2020 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-voting shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting before / during Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the dispatch of the

login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or may contact the toll-free number provided by NSDL: 1800-222-990. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for informa d. The Members who have already cast their votes by remote e-voting prior to the AGM will have right to

Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e Friday, September 11, 2020, may obtain the

participate at the AGM but shall not be entitled to cast their votes again on such resolution(s) for which the Member has already cast the cote through remote e-voting prior to the AGM e. Members, who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL or evoting@nsdl.co.in/1800-222-990 or contact Mr.Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at amitv@nsdl.co.in/022-24994360 or Ms.Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at

pallavid@nsdl.co.in/022-24994545. As per the SEBI Circular, no physical copies of the Notice of the AGM and Annual Report will be sent to Members. Members who have not registered their e-mail addresses are requested to follow the process mentioned below before 5:00 p.m. (IST) on Monday, September 7, 2020, for registering their e-mail addresses to receive the Notice of AGM and Annual Report electronically and to receive login ID and password for e-Voting:

I. For Members who hold shares in Electronic form:

a) Visit the link: https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/tr b) Enter the DP ID & Client ID, PAN details and captcha code.

c) System will verify the Client ID and PAN details.

d) On successful verification, system will allow you to enter your e-mail address and mobile

e) Enter your e-mail address and mobile number. The system will then confirm the e-mail address for the limited purpose of service of the AGM Notice & Annual Report.

1. For Members who hold shares in Physical form:

a) Visit the link: https://green.tsrdarashaw.com/green/events/login/tr b) Enter the physical Folio Number, PAN details and captcha code.

c) In the event the PAN details are not available on record, Member to enter one of the share

d) System will verify the Folio Number and PAN details or the share certificate number.

e) On successful verification, system will allow you to enter your e-mail address and mobile

Enter your e-mail address and mobile number.

g) If PAN details are not available, the system will prompt the Member to upload a self-attested copy of the PAN card. h) The system will then confirm the e-mail address for the purpose of service of the AGM Notice & Annual Report. Mr. P. K. Singh (FCS: 5878) or failing him, Mr. Rohit Prakash Prit (FCS: 33602) of M/s P. K. Singh 8

Associates, Practising Company Secretaries, have been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the

remote e-voting process before and during the AGM in a fair and transparent manner. The results of the remote e-voting before and during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The results declared along with Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website at www.trf.co.in and on website of NSDL www.evoting.nsdl.com and website of Stock Exchanges i.e BSE Limited ('BSE'), National Stock Exchange of India Limited ('NSE') and Calcutta Stock Exchange Limited ('CSE') at www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com respectively.

> TRF Limited Sd/-**Subhashish Datta** Company Secretary & Chief Commercial (FCS No: 7584)

New Delhi

Date : August 27, 2020

Place : Jamshedpur

Place: New Delhi

Company Secretary

# सतपाल महाराज ने किया सूर्यधार बैराज का स्थलीय निरीक्षण

वीर अर्जुन संवाददाता देहरादून, । सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आज डोईवाला विकासखण्ड के अंतर्गत सिंचाई विभाग द्वारा जाखन नदी पर बन रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार बांध परियोजना झील का स्थलीय निरीक्षण कर उसकी बढऩी लागत पर नाराजगी जाहिर करते हुए जांच के आदेश दिये हैं। सिंचाई एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज डोईवाला विकासखंड के अंतर्गत जाखन नदी सूर्यधार पर बन रहे बैराज के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस ड्रीम प्रोजेक्ट जिससे भोगपुर, घमंडपुर व लिस्ट्राबाद के 18 गांव की 1287 हेक्टेयर भूमि पर पूरे साल पर्याप्त सिंचाई की जा सकेगी। जलाशय के निर्माण से लगभग 33500 लोगों के पेयजल का भंडारण भी किया जायेगा। सिंचाई एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने



सूर्यधार बैराज का निरीक्षण करते सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज।

क्षेत्र में पर्यटन का समुचित विकास सुर्यधार बैराज के निरीक्षण के

निर्माण की योजना लागत 50.24 करोड तय की गई थी जिसे बढा कर 64.12 करोड़ कर दिया गया जो कि एक गंभीर मामला है। उन्होने कहा कि ऐसा क्यों हुआ है इसकी जांच की जायेगी। उन्होंने दौरान बताया कि नाबार्ड मद के मौके पर ही अधिकारियों से भी रोजगार दिलाया जाएगा। यहाँ की इस संबंध में जवाब तलब किये।

सिंचाई मंत्री ने माना कि परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ खामियाँ दिखाई दे रही हैं। मामले की जांच के आदेश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस जलाशय के बनने से इलाके के लोगों को

की घोषणा के अनुरूप उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट की लागत नहीं बढऩी चाहिए थी। उनके आदेशों का पालन होना चाहिए था। सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि वह विभाग द्वारा दिए जाने वाले बडे-बडे. ठेकों को छोटा करके स्थानीय छोटे ठेकेदारों को रोजगार मुहय्या करायेंगे। उन्होंने कहा कि बांध ध्झील की ऊंचाई व चौडाई को भी नए सिरे से देखना होगा। बांध से हुए पुनर्वास के मसले व किसानों को मिलने वाले मुआवजे पर सिचांई मंत्री असंतुष्ट दिखे। महाराज ने कहा कि इस इलाके को बेहतर पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही प्रमुख अभियन्ता मुकेश मोहन, मुख्य अभियंता, पी. सी. गौड, अधीक्षण अभियंता मनोज सिंह एवं अधिशासी अभियन्ता डी. के. सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री जी

# वंशीधर भगत ने विधानसभा अध्यक्ष से मानसून सत्र को लेकर की चर्चा



भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात करते हुए।

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून,। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से यम्ना कॉलोनी स्थित उनके शासकीय आवास पर भेंट की। इस अवसर पर

विधानसभा अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के बीच आगामी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर चर्चा वार्ता हुई। इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच कोविड-19 के चलते सत्र के दौरान विधायकों की सुरक्षा की दृष्टि से सदन में सोशल दूरी का पालन करने संबंधित आवश्यक तैयारियों के संबंध में चर्चा वार्ता हुई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के बीच प्रदेश में कोरोना संप्रमण से उपजे हालातों से संबंधित विषयों पर भी बातचीत हुई।

# पर्वतीय दिव्यांग सेवा संस्थान ने दिव्यांगों को बांटे ट्राइसाइकिल

वीर अर्जुन संवाददाता देहरादून, । पर्वतीय दिव्यांग सेवा संस्थान द्वारा दो विकलांगों को ट्राइसाइकिल एवं वाकर वितरित किए गए। इन्दर रोड स्थित आफिस मे मुख्य अतिथि डा एस फारूक ने जरूरत मंद अरुण कुमार एवं श्रीमती चमेली को ट्राईसाइकलें भेंट की। कार्यप्रम के मुख्य अतिथि एवं समाज सेवी डा एस फारुख ने कहा कि पर्वतीय दिव्यांग सेवा संस्थान समय समय पर दिव्यांगों का सहयोग ट्राइसाइकिल, राशन,सिलाई मशीने, वाकर आदि

प्रदान कर करती रहती है जो कि इन्सानियत की एक सच्ची सेवाहै। कार्यप्तम की अध्यक्षता करते हुए सेवा सिंह मठारू संरक्षक पर्वतीय विकलांग सेवा संस्थान ने कहा कि संस्था के अध्यक्ष गुलशन बाहरी



लिए बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर पार्षद रोहण चन्देल, पी एस कोचर ,गुरदीप कौर आदि ने जो स्वयं दिव्यांग हैं ऐसी सेवा के कार्यक्रम की भूरि भूरि प्रशंसा की। जस्वीर सिंह बग्गा, जितेंद्र किया गया।

प्रत्येक जनपद से एक विशेष उत्पाद

का चयन किया जाएगा

इस अवसर पर असहाय जन कल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष बलबीर नौटियाल, आर के बक्सी,

डनडोना, वेद प्रसाद दुग्गल आदि द्वारा दी गई गाइड लाइन का पालन

# लॉजिस्टिक्स पार्क से उत्तराखंड में आर्थिक विकास को मिलेगा बढावा

वीर अर्जुन संवाददाता

रूद्रप्र,। भारत की सबसे बडी आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स कंपनी सेफक्सप्रेस ने रुद्रपुर में अपना अत्याधुनिक लॉजिस्टिक पार्क शुरू किया है। यह अत्याधुनिक सुविधा रणनीतिक रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर स्थित है। रुद्रपुर में सेफक्सप्रेस लॉजिस्टिक पार्क का शुभारंभ एस0 के0 जैन, उपाध्यक्ष, पीयूष जैन, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तराखंड व रुद्रपुर के एरिया मैनेजर मोहित राय

इस मौके पर उपाध्यक्ष, एस के जैन ने कहा कि रुद्रपुर देश के विभिन्न उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, और कई प्रसिद्ध ब्रांडों के विनिर्माण संयंत्र यहां स्थित हैं। उत्तराखंड के सबसे बडे. औद्योगिक केंद्रों में से एक होने के नाते, रुद्रपुर आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स के

दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे ध्यान में रखते हुए, सेफक्सप्रेस ने रुद्रप्र में अपने अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना की है। रुद्रपुर में इस विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए सेफक्सप्रेस ने एक बडा निवेश किया है। रुद्रपुर में सेफक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने में बहुत मदद करेगा और पूरे उत्तराखंड क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला और रसद आवश्यकताओं को पूरा करेगा। लॉजिस्टिक पार्क 100 से अधिक वाहनों को एक साथ लोड करने और खाली करने में सक्षम है, जो सामानों के सुचारू और निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करता है। जो रुद्रपुर से पूरे देश के 1,131 से अधिक स्थानों तक सबसे तेज आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

# संक्षिप्त समाचार

### वेस्टर्न डिजिटल ने लॉन्च किया नया डब्ल्युडी पर्पल अल्ट्रा एंड्योरेन्स माइहो एसडी कार्ड

देहरादुन, वीर अर्जुन संवाददाता। आर्टीफिशियल इन्टेलीजेन्स इनेबल्ड डिियो कैमरा और उच्च 4 के एवं इस दायरे से बाहर के वीडियो रेजोल्यूशन्स की बढ़ती मांग के चलते आन-कैमरा स्टोरेज की जरूरत बढ<sub>़</sub> रही है। एक अग्रणी डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी वेस्टर्न डिजिटल कोर्प ने आज नेटवर्क के क्षेत्र ं वीडियो और एआई एनालिटिक्स के लिए स्टोरेज की इसी जरूरत को पूर हरने के लिए क् पर्पल अल्ट्रा एंड्योरेन्स माइहो एसडी कार्ड पेश किया है, जिसे व्रासतौर पर सिक्योरिटी कैमरा बाजार के उपकरण निर्माताओं, पुन: विहेताओं और इन्सटालर्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह अल्ट्रा-एंड्योरेन्स एवं हाई रफोर्मेन्स स्टोरेज का किफायती संयोजन है, जो तेजी से बढऩे सिक्योरिटी ग्रीडियो मार्केट के लिए 512 जीबी' तक की रेंज (32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी, 256 जीबी और 512 जीबी) में पेश किया गया है। माइको एसडी कार्ड कैमरा स्टोरेज और निरंतर रिकार्डिंग के साथ बैकअप फेलओवर के लिए उपयुक्त है। कम्पेटिबल कैमरा में कार्ड हेल्थ मानिटर की मदद से, यह कार्ड की बची हुई क्षमता का अनुमान लगाने में मदद करता है। खालिद वानी, डायरेक्टर चौनल सेल्स, वेस्टर्न डिजिटल इंडिया ने कहा, ''आज के उपभोक्ता सार्वजनिक सुरक्षा एवं एआई एनालिटिक्स यूज केस के लिए उच्च क्षमता औ<mark>र बेह</mark>तरीन एंड्योरेन्स <mark>वाले आ</mark>न-कैमरा स्टोरेज चाहते हैं।



तद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 25वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएर कवार, 25 सितम्बर, 2020 को दोपहर 12.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य ऑडिय जुअल मीन्स (वीसी / ऑएवीएम) के माध्यम से एजीएम में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेत् आयोजित की जाएगी। कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर दिनांकित 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित इसके सर्कलर्स दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 तथा भारतीय प्रतिभृति ए वेनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर दिनांकित 12 गई, 2020 के अनुसार कम्पनी की 25वीं वार्षिव रिपोर्ट एजीएम आयोजन की सूचना सहित, इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा 27 अगस्त, 2020 को उ तभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी'ज कम्पनी तथा/अथय डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। 25वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइ www.uttamsugar.in तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट नामत

www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है। कम्पनी अपने सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली अद्यतन संशोधित के नियम 20 तथा सेंबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरप अपेक्षाए) विनियमावली के विनियम 44 के प्रावधानों के निबन्धनों में सूचना में सूचीबद्ध स रतावों पर, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए इलेक्ट्रॉनिक बोटि सिस्टम (स्मिट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दिन ई-वोटिंग) का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिव साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान कर हरित है। जिन सदस्यों का नाम कट—ऑफ तिथि अर्था शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 को सदरयों की पंजिका अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थ वामियों की पंजिका में दर्ज मौजूद होगा, ई-योटिंग की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

रेमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार. 21 सितम्बर, 2020 (प्रात: 9.00 बजे) आरंभ होगी तथ बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 (साथ 5.00 बजे) समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान सदस्यग पना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तदुपरान्त लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेत लेमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जो सदस्र वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होगे तथा रिमोंट ई-वोटिंग के माध्यम र प्रस्तावों पर वोट नहीं डाल चुकें होंगे, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा योट खालन हेतु ग्राह्म होंगे।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 तथा संबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेकाए वैनियमावली, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसरण में, सदस्यों की पंजिका तथ कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियों सहित) कम्पनी की 25वीं वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजनार्थ बद रहेंगी।

कोई व्यक्ति जो कम्पनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विधि से सूचना प्रेषण के उपरात कम्पनी के शेय अर्जित करता है तथा कम्पनी का रोयरधारक बनता है और कट—ऑफ तिथि को शेयर धारक है instameet@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि वह रिमोट ई—चोटिंग के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह अपनी मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग बोर डालने के लिए कर सकता / सकती है।

–वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थित में आप www.instavote.linkintime.co.in . डाउनलोड्स सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों हेतु ई—वोटिंग यूजर मैनुअल तथा सदस्यों हेतु बहुः पूर्घ जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू'ज) देखें अथवा श्री जी. रामारथनम, चीफ – लीगल ऐण्ड कार्पोरेर अफेयर्स ऐण्ड कम्पनी सेकेटरी, ए-2ई, तृतीय तल, सीएमए टावर, सेक्टर-24, नोएडा (उत्त प्रदेश), से फोन नंबर 0120—4152766 पर अथवा ई—मेल investorrelation@uttamsugar.in प कम्पनी के निदेशक मंडल के आदेश द्वार

वास्ते उताम शुगर मिल्स लिमिटेड E401./-लीगल ऐण्ड कार्पोरेट अफेवर्स ऐण्ड कम्पनी सेक्रेटर्र (सदस्यता सं. एफसीएस-1021)

# विष् श्रेअज्ञ

### उत्पादों की गुणवत्ता का पहले से देहरादून में समाचार पत्र प्राप्त करने एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें। मो.7895189235

### वीर अर्जुन की प्रतियां प्राप्त करने के लिए संपर्क करें:-

वसीम अहमद देहरादून:-

मो.-9758325677

रुडकी:-चन्दर न्यूज एजेंसी

प्रो.- श्री चन्द्रभान, दुकान नं. 11, पुराना रेलवे रोड, मकतुलपुरी रुड़की मो.- 9927069871

आत्रे न्यूज एजेंसी हरिद्वार:-

प्रो.- श्री अनिल कुमार शर्मा ,जटवाड़ा पुल, हरिद्वार मो.- 9837177797

आजाद न्यूज एजेंसी

ऋषिकेश:-प्रो.- श्री संजीव गुप्ता हरिद्वार रोड, ऋषिकेश मो.- 9837229222

# भाजपा विधायक पूरण सिंह फर्त्याल ने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के समक्ष रखा अपना पक्ष

वीर अर्जुन संवाददाता

देहरादून, । भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑनलाइन, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिये एक जनपद से एक उत्पाद का चुनाव करने विषय पर बैठक लिया है। राज्य सरकार की तरफ से नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने राज्य का पक्ष

उत्तराखण्ड का योगदान बढाने और निर्यात में योगदान वृद्धि के लिये योजना बनाई जाएगी। इसके लिये प्रत्येक जनपद से एक विशेष उत्पाद का चयन किया जाएगा। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में शहद, मशरूम, फार्मा कम्पनी और हर्बल उत्पादन में विशेष योगदान दे रहे हैं। प्रत्येक जनपद से चयनित उत्पाद को भारत

वीर अर्जुन संवाददाता

ऋषिकेश, । उत्तराखंड संस्कृत

विश्वविद्यालय हरिद्वार के योग विज्ञान

विभाग के शिक्षार्थियों द्वारा योग में

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर विधानसभा

अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने

विधानसभा अध्यक्ष कोष से 50 हजार

रुपये धनराशि के चेक शिक्षार्थियों को

भेंट किए। इस अवसर पर श्री

अग्रवाल ने कहा है कि विगत वर्ष

उत्तराखंड में संपूर्ण देश के पीठासीन

अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था

उस सम्मेलन में उत्तराखंड संस्कृत

विश्वविद्यालय के योग विभाग के

छात्रों द्वारा योग का लोकसभा अध्यक्ष

के सम्मुख उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया

था। जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की

थी। उन्होंने कहा कि उसी दिन 10

योग शिक्षार्थियों को विधानसभा

अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से पांच-पाच

इस संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में करने का अनुरोध किया गया है। बैठक में प्रभाव से रोजगार देने के लिए 24000 से

उत्तराखण्ड का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य के सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में आयुर्वेद, स्पा, वेलनेस, ईको-ट्रिज्म, एडवेंचर के क्षेत्र में विभिन्न कार्य कर रहा है। यह कार्य समपूर्ण राज्य में हो रहा है, अतः जनपद के स्थान पर सम्पूर्ण राज्य को इस योजना में शामिल किया जाए। इसके अलावा, कृषि एवं उद्यान में वैली के आधार पर वेशेष उत्पाद का चुनाव भी योजना में शामिल बताया गया कि उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में, एक्सपोर्ट रैंकिंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राज्य की एक्सपोर्ट पालिसी बना दी गयी है और एक्सपोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है। सिंगल विंडो स्कीम के तहत मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में कोविड के

संस्कृत विवि के शिक्षार्थियों को 50 हजार रु की राशि के चेक प्रदान किए

देहरादुन,। भाजपा विधायक पूरण सिंह **हर्त्वाल ने आज प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत** के सामने अपने बयान को लेकर अपना पक्ष रखा। श्री भगत ने विधायक का पक्ष सुनने के बाद कहा कि विधायक द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण और कागजातों का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा। आज भाजपा विधायक पुरण सिंह को लेकर अपना पक्ष रखने हेतु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बुलाया था ने आज पार्टी प्रदेश कार्यालय में श्री भगत से भेंट की और अपना पक्ष उनके सामने रखा। विधायक अथवा मुख्यमंत्री को लेकर कोई आलोचनात्मक बात नहीं की लेकिन जिस

मामले को लेकर उन्होंने आपत्ति उठायी थी

उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और अधिकारी भसीन ने बताया कि हाल के दिनों में अलग सरकार को गुमराह कर रहे हैं। विधायक ने प्रकरण का पूरा विवरण श्री भगत के सामने भी प्रस्तुत किया और कहा कि इस मामले की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें कई अधिकारी निलंबित भी हो चुके हैं लेकिन इसका काम पुन: उसी पक्ष को दे दिया गया जिसे लेकर शिकायतें हई। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा इस मामले अधिकारियों के भ्रष्टाचार का खुलासा करना चाहते हैं। पुरण सिंह फर्त्याल द्वारा अपना पक्ष रखने के बाद बंशीधर भगत ने बताया कि श्री फर्त्याल ने उन्हें इस मामले का विवरण देने साथ साथ दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जिनका अवलोकन व अध्ययन करने के बाद इस संबंध में आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ देवेन्द्र

अलग कारणों को लेकर जिन 4 विधायकों को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ने अपना पक्ष रखने के लिए बलाया था उन सभी ने अपनी बात अध्यक्ष जी के सामने रख दी है। विधायक कंवर प्रणव चेंपियन द्वारा माफी माँगने व उनकी भाजपा में वापसी के साथ यह मामला अब समाप्त हो गया है, जबिक के बाद उन्हें क्षमा दिए जाने के साथ इस मामले का भी पटाक्षेप हो चुका है। विधायक महेश नेगी व पूरण सिंह फर्त्वाल से जुडे मामलों में उनके भी पक्ष आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी परिवार की तरह है लेकिन अनुशासन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल है। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र के चलते सबकी बात पूरी तरह सुनने के बाद पार्टी गण दोष के आधार पर निर्णय लेती है।

# लीला पैलेसेस होटल्स ऐण्ड रिजॉर्ट्स के अतिथियों को मिलेगा शानदार बीएमडब्ल्यू लग्जरी का आतिथ्य

वीर अर्जुन संवाददाता देहरादून,। बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने लीला पैलेसेस, होटल्स ऐण्ड रिजॉर्ट्स को 45 बीएमडब्ल्यू कारों की डिलिवरी की है। भारत की प्रमुख लग्जरी हॉस्पिटेलिटी ब्रांड के अतिथियों को उनके ठहरने के दौरान आधुनिकतम बीएमडब्ल्यू कारों की विलासिता का अनुभव मिलेगा। लीला पैलेसेस, होटल्स ऐण्ड रिजॉर्ट्स के बीएमडब्ल्यू बेडे.को बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और बीएमडब्ल्यू एक्स 5 के साथ अपडेट किया गया है, जो इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आराम और सुरक्षा प्रदान करती हैं। विष्म पावाहए प्रेसिडेंट, बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया ने कहा कि, भारत में शुरुआत ही से बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने अपने पारखी ग्राहकों और

सफलतापूर्वक एक असाधारण प्रीमियम मोबिलिटी समाधान तैयार किया है। लीला पैलेसेस, होटल्स ऐण्ड रिजॉर्ट्स के साथ हमारे काफी पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध इन 45 बीएमडब्ल्यू कारों की डिलिवरी के साथ और भी मजबूत हुए हैं। इन कारों को लीला आइकॉनिक <mark>पैलेस</mark> भवनों में षामिल किया जाएगा। अतिथि जब कभी भारत में विख्यात लीला के अनेक भवनों में से किसी में आयेंगे, उन्हे बेमिसाल लग्जरीए आराम और सबसे अलग बीएमडब्ल्यू अधिक विलासितापूर्ण अनुभव प्राप्त होगा। अनुराग भटनागर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, द लीला पैलेसेस, होटल्स ऐण्ड रिजॉर्ट्स ने कहा कि, हमारे अतिथि सुन्दर पसंद

योग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शिक्षार्थियों को चेक वितरित करते स्पीकर अग्रवाल।

इस अवसर पर उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मी नारायण जोशी ने छात्र-छात्राओं अध्यक्ष विवेकाधीन कोष से दी गई धनराशि के लिए विधानसभा अध्यक्ष

मेहरवान, नितिन कुमार, हिमांशु त्यागी, गौरव, आकांक्षा आदि सहित योग से जुडे हुए अनेक छात्र छात्राएं

पूर्वोत्तर रेलवे ने स्थायी रूप से बंद की 4 रेल गाड़ियां

वीर अर्जुन संवाददाता कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने देहरादून, । पूर्वीत्तर रेलवे के पूर्वोत्तर रेलवे के लोक सूचना अधिकारी से पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत कोरोना लॉक डाउन से पूर्व संचालित

मुख्यालय के निर्देष पर पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल के परिचालन विभाग में 4 रेल गाडिय़ां बंद करने का निर्णय लिया गया है। अब कोरोना लॉक डाउन के बाद रेल यातायात सामान्य होने पर भी यह 4 रेल गाडिय़ां नहीं चलेंगी। यह जानकारी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को पूर्वीत्तर रेलवे इज्जतनगर के लोक सूचना अधिकारी एवं वरि0 मण्डल सामग्री प्रबंधक इज्जतनगर द्वारा लिखित रूप से उपलब्ध करायी गयी

उन रेल गाडियों के विवरण की सूचना मांगी थी जिन्हें स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके उत्तर में लोक सूचना अधिकारी एवं वरिश्ठ मण्डल सामग्री प्रबंधन इज्जतनगर ने अपने पत्रांक 10598 दिनांक 03-08-2020 के साथ वरिश्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक तथा मण्डल परिचालन प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना

को उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे ने 4 रेलगाडिय़ों स्थायी रूप से बंद कर दी है जिसमें से दो रामनगर-काषीपुर-मुरादाबाद होते हुये हरिद्वार के बीच तथा दो रामनगर-काषीपुर-मुरादाबाद के बीच चलती थी। श्री नदीम को उपलब्ध सूचना के अनुसार गाडी संख्या 55321 (मुरादाबाद-रामनगर), 55308 (रामनगर-मुरादाबाद), 15033 (हरिद्वार-रामनगर) तथा 15034 (रामनगर-हरिद्वार) को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। श्री नदीम ने

मुरादाबाद से रोजाना प्रात: 07:35 बजे चलकर गोट, सेहल, पीपलसाना, जालपुर, रोषनपुर, पदियानगला, अलीगंज होते हुये 09:05 बजे काषीपुर पहुंचती थी तथा 09:10 बजे काषीपुर से चलकर गौषाला, पीरूमदारा होते हुये 09:55 बजे रामनगर पहुंचती थी जो रोज रोजगार व अपने कामों के लिये आने वालों तथा पर्यटकों के लिये बहुत उपयोगी ट्रेन थी। बंद की गयी गाडी संख्या 55308 रामनगर से दिन में रोजाना 11:10 बजे चलकर पीरूमदारा, काषीपुर से 11:43 बजे चलकर अलीगंज, पदियानगला, रोषनपुर, जालपुर, पीपलसाना, सेहल, गोट होते हुये 13:25 बजे मुरादाबाद पहुंचती थी। दिन में मुरादाबाद जाने वालों तथा पहाड़.से आकर रामनगर से मुरादाबाद व आगे जाने वालों के लिये यह बहुत उपयोगी ट्रेन थी। श्री नदीम ने बताया कि रामनगर से जुडे, पहाडों, तथा काषीपुर को गढवाल से जोडऩे वाली एक मात्र ट्रेन सं0 15033 जो सप्ताह में तीन दिन बृहस्पतिवार, षनिवार, रविवार चलती थी उसे बंद कर दिया

है। काषीपुर निवासी सूचना अधिकार की प्रति उपलब्ध करायी है। श्री नदीम बताया कि गाडी संख्या 55321 गौषाला होते हुये काषीपुर पहुंचती थी गया जबकि लोगों की मांग व उम्मीद थी कि इसे रोजाना करके इसे राजधानी देहरादून तक बढा़या जायेगा। यह ट्रेन षाम 6:45 पर हरिद्वार से चलकर लक्सर, नजीबाबाद होते हुये मुरादाबाद पहुंचती थी, जहां से 09:50 पर चलकर रोषनपुर होते हुये रात 11:00 बजे काषीपुर तथा 11:05 बजे काषीपुर से चलकर रात 11:35 पर रामनगर पहुंचती थी। रामनगर व पहाड आने वाले पर्यटकों तथा प्रवासियों तथा राजधानी से कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में जाने वालों के लिये यह एकमात्र ट्रेन